



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

सितंबर 12, 2025

संख्या 37

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	सितंबर 06	अगस्त 29	सितंबर 05	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3471104	3763892	3776976	13084	305872
1.1 संचलन में नोट	3471089	3763879	3776964	13085	305875
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	13	12	-1	-2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	101	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	988846	959655	926601	-33054	-62245
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8151	8031	8174	143	23
2.6 अन्य बैंक	55064	53147	53660	513	-1403
2.7 अन्य	692331	717016	783177	66161	90846
3 अन्य देयताएं	1948716	2399650	2449109	49459	500393
कुल देयताएं / आस्तियां	7164355	7901535	7997841	96306	833486
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5106497	5183423	5188750	5328	82253
2 सोना	520331	765603	796946	31343	276615
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1315048	1765179	1771131	5952	456083
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	35426	19623	44070	24447	8644
4.3 नाबाई	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	7740	1950	3936	1986	-3804
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	165117	143776	167437	23661	2320
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	12132	19917	23507	3590	11375

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	सितंबर 05, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6162689	698268	37333	4038	450548	29942	377174	9033
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5158375	584477	6008	540	307541	16919	87116	-19667
1.2 स्वर्ण	796946	90299	31343	3530	128783	12123	276614	28311
1.3 विशेष आहरण अधिकार	165409	18742	-256	-34	10120	573	10352	270
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	41960	4751	239	2	4105	327	3091	120

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

सितंबर 05, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 963210 करोड़	2025													
	अगस्त 23	अगस्त 24	अगस्त 25	अगस्त 26	अगस्त 27	अगस्त 28	अगस्त 29	अगस्त 30	अगस्त 31	सितंबर 01	सितंबर 02	सितंबर 03	सितंबर 04	सितंबर 05
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	996416	994420	962619	983387	992590	960751	966824	962392	961409	957245	950567	942182	960416	933924
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	103.4	103.2	99.9	102.1	103.1	99.7	100.4	99.9	99.8	99.4	98.7	97.8	99.7	97.0

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अगस्त 22, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	347697	5741	426	38283	53768	52800
1.2 बैंकों से उधार	100383	-457	-55747	-11593	-72337	-26298
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	24566	-1009	5337	-5350	9512	-53223
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23504101	31964	849900	923500	2084165	2178975
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	4.2	4.1	10.8	10.2
2.1.1 मांग	2891681	44952	2186	193632	233727	445642
2.1.2 मीयादी	20612420	-12988	847714	729867	1850438	1733333
2.2 उधारियां	862409	22567	133435	-52840	93303	-48968
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1032985	7358	-6690	-28646	40030	102247
3 रिज़र्व बैंक से उधार	1818	-2534	-216008	-309648	-86602	-4890
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1016747	12289	35496	52458	-47095	-39664
4.1 उपलब्ध नकदी	83847	6191	6758	1973	3046	-12344
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	932900	6098	28738	50485	-50141	-27320
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	272602	13149	9499	56801	22626	64775
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	15581	-1223	4210	-10257	-4354	-984
5.3 बैंकों को अग्रिम	28221	1926	-4817	-11283	-2739	-15330
5.4 अन्य आस्तियां	55543	-16990	9270	-11810	29916	-69150
6 निवेश	6758461	8293	258929	60533	463898	392974
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	4.2	0.9	7.9	6.2
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6758002	8293	259519	60704	464315	392874
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	459	0	-590	-171	-416	101
7 बैंक ऋण	18644997	38831	513145	401025	2027997	1699689
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.2	3.1	2.2	13.6	10.0
7 क.1 खाद्य ऋण	50456	-1825	1280	13925	5005	26095
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18594541	40656	511865	387100	2022992	1673593
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18305426	37041	501744	395574	1973372	1669379
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	78197	401	6287	3234	22792	11443
7 ख.3 भुनाए गए	227083	2154	7228	6023	35466	22497
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12833	-360	-145	-2289	-1056	-3434
7 ख.5 भुनाए गए	21459	-405	-1969	-1518	-2577	-197

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	सितंबर 06	अगस्त 08	अगस्त 15	अगस्त 22	अगस्त 29	सितंबर 05
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	5.01	4.28	..	4.33	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	79.10	79.27	..	79.33	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	57.15	40.63	..	43.42	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.62	28.76	..	28.75	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	25.78	5.86	..	6.55	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.85/8.15	7.85/8.15	7.80/8.15	7.80/8.15	7.80/8.00
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिंत औसत)	6.47	5.40	5.43	5.47	5.45	5.38
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.63	5.46	5.49	5.48	5.51	5.51
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.73	5.55	5.57	5.58	5.60	5.62
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.72	5.58	5.59	5.60	5.64	5.67
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.91	6.45	6.47	6.61	6.67	6.59
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.93	87.62	87.49	87.44	87.85	88.32
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	93.31	102.05	102.38	101.34	102.47	103.08
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.28	1.57	1.63	1.74	1.76	1.78
3-माह	1.45	1.70	1.77	1.87	1.80	1.83
6-माह	1.73	1.85	1.91	1.96	1.97	2.01

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अगस्त 22	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28308075	19363	0.1	843187	3.4	1021486	3.7	2310343	9.8	2525027	9.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3715743	-11815	-0.3	-5535	-0.2	84992	2.3	199439	6.2	311002	9.1
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3034802	44690	1.5	1594	0.1	194779	6.9	237127	10.1	446320	17.2
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21447884	-13435	-0.1	849842	4.5	745376	3.6	1853842	10.4	1749882	8.9
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	109645	-77	-0.1	-2714	-2.9	-3661	-3.2	19935	27.7	17823	19.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8587439	-93844	-1.1	91198	1.2	76613	0.9	307495	4.2	892670	11.6
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1511706	-103530		-167668		3601		-159702		486162	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7075732	9686	0.1	258866	4.0	73012	1.0	467196	7.5	406508	6.1
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	19447664	40046	0.2	506960	2.9	379535	2.0	2055138	13.1	1737873	9.8
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	13069	645		-4099		-25176		5121		2763	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	19434595	39401	0.2	511059	3.0	404712	2.1	2050017	13.1	1735110	9.8
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6468572	-34726	-0.5	362798	6.5	320045	5.2	936046	18.7	538271	9.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38057	0	0	874	2.6	1426	3.9	2906	9.3	3751	10.9
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6233658	-107887	-1.7	118643	2.2	-243866	-3.8	991242	21.6	647538	11.6
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2288911	-44187	-1.9	103095	5.8	141484	6.6	382599	25.3	395681	20.9

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	सितंबर 05	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4913787	-26745	-0.5	19908	0.4	84544	1.8	203984	4.6	262432	5.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3815022	13085	0.3	-5777	-0.2	90574	2.4	185546	5.6	309338	8.8
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	988435	-32399	-3.2	26612	2.6	-3053	-0.3	-3370	-0.3	-63626	-6.0
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	110330	-7432	-6.3	-926	-1.0	-2976	-2.6	21808	30.4	16721	17.9
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1607508	26856		-28181		99402		-79936		442476	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1563480	2409		-57007		88020		-90447		433831	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-285521	-44525		-187104		-166506		-163254		-52270	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-295354	-41324		-181551		-138093		-167685		-53250	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5985014	36659	0.6	385935	7.4	434066	7.8	865646	18.2	357996	6.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38057			1163	3.5	1426	3.9	3194	10.2	3463	10.0
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2431271	45735	1.9	151905	8.5	283844	13.2	421666	27.7	489232	25.2

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
सितंबर 01, 2025	-	-	-	48820	4571	118298	-	-	-	-162547
सितंबर 02, 2025	-	-	-	-	1510	127443	-	-	-	-125933
सितंबर 03, 2025	-	-	-	-	1952	118742	-1214	-	-	-118004
सितंबर 04, 2025	-	-	-	150023	4644	149334	-3131	-	-	-297844
सितंबर 05, 2025	-	-	-	-	3936	149276	1149	-	-	-144191
सितंबर 06, 2025	-	-	-	-	868	109040	-	-	-	-108172
सितंबर 07, 2025	-	-	-	-	824	104586	-	-	-	-103762

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जून	जुलाई	जून	जुलाई	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	190.2	193.0	194.2	196.0	0.9	2.1	1.6
1.1 ग्रामीण	192.2	195.3	195.5	197.6	1.1	1.9	1.2
1.2 शहरी	187.8	190.3	192.6	194.2	0.8	2.3	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	141.4	142.7	145.0	146.5	1.0	2.4	2.7
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.0	155.3	153.8	154.4	0.4	-0.3	-0.6
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	192.3	197.8	185.8	188.0	1.2	1.3	-5.0
3.2 ईंधन और बिजली	146.9	148.2	143.0	144.6	1.1	-4.9	-2.4
3.3 विनिर्मित उत्पाद	142.0	141.7	144.8	144.6	-0.1	0.0	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अगस्त 22, 2025	494943	36879	5.66 - 6.27
सितंबर 05, 2025	495294	41965	5.69 - 6.50

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अगस्त 15, 2025	554480	56758	5.68 - 12.67
अगस्त 31, 2025	543870	60808	5.72 - 13.83

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	सितंबर 06, 2024	अगस्त 29, 2025	सितंबर 05, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	18166	27549	20066
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1477	10687	7397
3 त्रिपक्षीय रेपो	607781	880736	559054
4 बाजार रेपो	510382	776484	510321
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3736	12741	7895

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

सितंबर 05, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	13541	14848	70688	206888
182-दिवसीय	55827	44242	20230	201130
364-दिवसीय	73728	75967	46503	348203
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (सितंबर 05, 2025 तक)	2024-25 (सितंबर 06, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (सितंबर 05, 2025 तक)	2024-25 (सितंबर 06, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	674000	623697	1400697	538914	428151	1039275
2. राज्य सरकारें	408392	323947	1073310	287292	229498	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल द्वारा प्रकाशित।